

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 8—अप्रैल 14, 2017 (चैत्र 18, 1939)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 8—APRIL 14, 2017 (CHAITRA 18, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2017

सं. ए. 12026/6/2004-प्रशा-1(वि.वि.)—राष्ट्रपति सहर्ष श्री हंसराज, सहायक, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय की उक्त मंत्रालय के विधायी विभाग में 7वें सी.पी.सी. के अनुसार पे मैट्रिक्स के लेवल 7 [पूर्व संशोधित- रुपए 9300-34800 के वेतन बैंड और रुपए 4600 के ग्रेड वेतन] में रोकड़ अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 11 मार्च, 2017 की पूर्वाह्न से और एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक बढ़ाते हैं।

2. श्री हंसराज विधायी विभाग (मुख्य) के रोकड़ अनुभाग के कार्य का संचालन करेंगे तथा विधायी विभाग (मुख्य) की स्थापना के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी की इयूटी करेंगे।

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2017

सं. 23012/01/2015-अ.भा.से.III—डॉ. एंजल भाटी, आईएस (एजीएमयूटी : 2014) को अपना नाम बदलकर एंजल भाटी से एंजल भाटी चौहान करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए उन्हें एंजल भाटी चौहान के रूप में जाना जाएगा।

राजेश कुमार यादव, उप सचिव

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2017

सं. ए-11019/01/2016-ईजी—राष्ट्रपति, श्री मांजी जमनादास चांडी को 28.12.2016 (अपराहन) से अगले आदेशों तक 15600-39100/- रुपए (ग्रेड वेतन 6600/- रुपए) के वेतनमान में महालेखाकार (ए एंड ई) का कार्यालय, गुजरात, राजकोट में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

हरि किशोर, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 17 मार्च 2017

सं. ए-32013/06/2016-एन.टी.एच.—राष्ट्रपति, डॉ० एस० के० कुलश्रेष्ठ, वैज्ञानिक एसडी को 37400-67000/- रुपए के वेतन बैंड-4 और 8700/- रुपए के ग्रेड वेतन (संशोधित वेतन मैट्रिक्स का लेवल 13) में दिनांक 27.02.2017 (पूर्वाहन) से राष्ट्रीय परीक्षण शाला में निदेशक (ग्रेड-II) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2017

सं. ए-32013/1/2016-स्थापना—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियमित सहायक निदेशकों (विधिक मापविज्ञान) को, उनकी पदोन्नति होने पर, उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से एक वर्ष की अवधि और अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए उनके नाम के सामने उल्लिखित कार्यालयों में, वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (67,700- 2,08,700 रुपये) में उप निदेशक (विधिक मापविज्ञान) के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति/नियुक्ति की प्रभावी तिथि	उस कार्यालय का नाम, जहां अधिकारी की पदोन्नति होने पर तैनाती की गई है
1.	श्री अंशुल सिंह	10.02.2017 (अपराहन)	आर.आर.एस.एल., नागपुर
2.	श्री आशुतोष अग्रवाल	10.02.2017 (अपराहन)	आर.आर.एस.एल., वाराणसी
3.	डॉ. राकेश जोशी	01.03.2017 (पूर्वाहन)	विधिक माप विज्ञान प्रभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली

2. उपर्युक्त नियुक्तियां इस विभाग के दिनांक 10 फरवरी, 2017 के कार्यालय आदेश संख्या 22/2017 में उल्लिखित शर्तों के अध्वधीन होंगी।

जयश्री नारायणन, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 17 फरवरी 2017

सं. ए. 12025/01/2015-सीएचएस-IV—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति महोदय, डॉ. निधि चोपड़ा को दिनांक 22 जून, 2015 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-III (बाल रोग) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 21 मार्च 2017

सं. ए. 12025/98/2016-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय डॉ. अर्चना कश्यप दिनांक 12.01.2017 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल चिकित्सा विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 मई 2016

सं. ए 32013/04/2014-प्रशा.॥—राष्ट्रपति, वेतन बैंड-2 में 4200 रु. के ग्रेड वेतन सहित 9300-34,800/- का वेतनमान ले रहे समूह 'ख' (अराजपत्रित) के निम्नलिखित कनिष्ठ बेतार अधिकारियों को उनकी नियमित आधार पर पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से वेतन बैंड-3 में 5400/- के ग्रेड वेतन सहित 15,600-39,100/- के वेतनमान में भारतीय रेडियो विनियामक सेवा (आईआरआरएस) में अभियंता समूह 'क' (राजपत्रित) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

क्र.सं.	नाम	कार्यग्रहण की तिथि
1.	श्री एस. जयकुमार	18.04.2016
2.	श्री सी. मीनल	12.04.2016
3.	श्री जी.सी. मलिक	11.04.2016
4.	श्री के.वी. सुनील कुमार	25.04.2016
5.	श्री बी.के. राम	02.05.2016

निठाली राम, अवर सचिव

दिनांक 5 जुलाई 2016

सं. ए-12028/54/2013-प्रशासन-॥—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री केवल सिंह, सहायक बेतार सलाहकार, आईआरआरएस, दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से दिनांक 30 जून, 2016 के अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

निठाली राम, अवर सचिव

दिनांक 6 जुलाई 2016

सं. ए-12028/54/2013-प्रशासन-॥—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री आर. जे. एस. कुशवाहा, सहायक बेतार सलाहकार, आईआरआरएस, दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से दिनांक 30 जून, 2016 के अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

निठाली राम, अवर सचिव

दिनांक 26 जुलाई 2016

सं. ए. 12028/09/2014-प्रशा.॥—राष्ट्रपति, इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2014 के अर्हता प्राप्त उम्मीदवार श्री अनुप्रिय बर्धन (रोल नं. 217970, रैंक-48) को 15,600-39,100/- रु. (पीबी-3) के पे बैंड में 5400/- रु. के ग्रेड वेतन सहित दूरसंचार विभाग के बेतार योजना और समन्वय स्कंध में अस्थायी क्षमता में दिनांक 28.12.2015 के पूर्वाहन से इंजीनियर (भारतीय रेडियो विनियामक सेवा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

निठाली राम, अवर सचिव

दिनांक 26 अक्टूबर 2016

सं. ए-32013/03/2016-प्रशा.॥—राष्ट्रपति, स्तर-10 के निम्नांकित इंजीनियरों (56100/-रुपये—177500/-रुपये) (छठे सीपीसी के अनुसार 15600-39100/-रुपये के वेतनबैंड-3 और 5400/-रुपये के ग्रेड वेतन सहित) को भारतीय रेडियो विनियामक सेवा (आईआरआरएस) में उनकी नियमित पदोन्नति के आधार पर उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से स्तर-11 (67700/-रुपये—208700/-रुपये) (छठे सीपीसी के अनुसार 15600-39100/-रुपये के वेतनबैंड-3 और 6600/-रुपये के ग्रेड वेतन सहित) में सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी इंजीनियर के पद पर नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	ए.के.सक्सेना	01.08.2016(पूर्वाहन)
2.	गुम्मा राम राव	20.06.2016(पूर्वाहन)
3.	के.राधिका	28.07.2016(पूर्वाहन)
4.	रमेश चन्द्र कोटा पीएच (ओबीसी)	04.08.2016(अपराहन)
5.	एस.के.गुप्ता	01.08.2016(पूर्वाहन)
6.	सुभाष बरूआ	04.08.2016(पूर्वाहन)

निठाली राम, अवर सचिव

दिनांक 21 दिसंबर 2016

सं. ए-32013/05/2016-प्रशा.॥—राष्ट्रपति, समूह 'ख' (अराजपत्रित), वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300-34,800/-रु.+ ग्रेड वेतन 4200/- संशोधन पूर्व, स्तर-6 पर (35400—112400/-रु. संशोधित) वेतनमान में तैनात निम्नलिखित कनिष्ठ वायरलेस अधिकारियों को वेतन बैंड-3, वेतनमान 15,600-39,100/-रु.+ ग्रेड वेतन 5400/- (संशोधन पूर्व) स्तर-10 पर (56,100—17,7500/-रु. संशोधित) वेतनमान में भारतीय रेडियो विनियामक सेवा (आईआरआरएस) में उनकी नियमित पदोन्नति होने पर, उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से अभियन्ता समूह 'क' (राजपत्रित) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	सी.के. मित्रा	25.10.2016 (पूर्वाह्न)
2	दीपक कुमार पंत	27.10.2016 (पूर्वाह्न)
3	सुखबीर सिंह	28.10.2016 (पूर्वाह्न)
4	योगेश कुमार शर्मा	26.10.2016 (पूर्वाह्न)
5	के.वी.एस. वारा प्रसाद	26.10.2016 (पूर्वाह्न)
6	एस.एस. सांतारमन	25.10.2016 (पूर्वाह्न)
7	बी. भट्टाचर्जी	01.11.2016 (पूर्वाह्न)
8	नलीनीश श्रीवास्तव	26.10.2016 (पूर्वाह्न)
9	डी.एस. रावत	26.10.2016 (पूर्वाह्न)
10	जे.के. मुखर्जी	25.10.2016 (पूर्वाह्न)
11	ब्रह्म पाल सिंह	27.10.2016 (पूर्वाह्न)
12	आर.के. यादव	31.10.2016 (पूर्वाह्न)
13	ए.वी.एस. रवि कुमार	26.10.2016 (पूर्वाह्न)
14	नागेन्द्र शर्मा	25.10.2016 (पूर्वाह्न)
15	योगेश नन्दवानी	26.10.2016 (पूर्वाह्न)
16	श्रीमती एनीस अब्राहम	16.11.2016 (पूर्वाह्न)
17	पी. सुब्बा (अ.ज.जा)	28.10.2016 (पूर्वाह्न)
18	रवि शंकर श्रीवास्तव	07.11.2016 (पूर्वाह्न)

निठाली राम, अवर सचिव

दिनांक 4 जनवरी 2017

सं. ए-38012/01/2016-प्रशासन-॥—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग में उप बेतार सलाहकार, आईआरआरएस, श्री एच.एम.श्रीवास्तव दिनांक 30 नवम्बर, 2016 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए।

निठाली राम, अवर सचिव

दिनांक 3 फरवरी 2017

शुद्धिपत्र

सं. ए-32013/03/2016-प्रशासन-II—इस कार्यालय की दिनांक 26.10.2016 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, इस अधिसूचना में उल्लिखित श्री गुम्मा रामा राव (क्रम सं. 2) के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख को दिनांक 20.06.2016 के स्थान पर 01.08.2016 (पूर्वाह्न) पढ़ा जाए।

निठाली राम, अवर सचिव

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

[भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)]

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 मार्च 2017

सं. ए-19011/112/14-यूआईडी.ए.आई.—यूआईडीएआई, मुख्यालय की दिनांक 17.02.2014 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में तथा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I का कार्यालय, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, महाराष्ट्र के दिनांक 24.02.2017 के पत्र सं. एडीएमएन-I/ऑडिट/डीईपीटी/एसआर/1548, द्वारा संप्रेषित सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के अनुसरण में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्या.), में श्री अरुण सिंह रावत, उप-निदेशक की प्रतिनियुक्ति अवधि को तीन वर्ष से आगे, 31.03.2017 तक, अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

गौरव शुक्ला, उप निदेशक (स्था.)

दिनांक 16 मार्च 2017

सं. ए-19011/30/12-यूआईडी.ए.आई.—यूआईडीएआई, मुख्यालय की दिनांक 29.05.2012 की समसंख्यक अधिसूचना तथा दिनांक 22.10.2014 के कार्यालय आदेश के अनुक्रम में तथा माननीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, के अनुमोदन के अनुसरण में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, में श्री अमित सिंगल, सहायक महानिदेशक की प्रतिनियुक्ति अवधि को दो और वर्ष के लिए यानी छठे तथा सातवें वर्ष के लिए, 11.05.2017 से 10.05.2019 तक, अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

गौरव शुक्ला, उप निदेशक (स्था.)

सं. ए-19012/68/13-यूआईडी.ए.आई.—यूआईडीएआई, मुख्यालय की दिनांक 29.05.2013 तथा 31.03.2016 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में तथा माननीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, के अनुमोदन के अनुसरण में, श्रीमती पूनम खेरा, निजी सचिव, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली की प्रतिनियुक्ति अवधि को एक और वर्ष के लिए यानी पांचवें वर्ष के लिए 26.05.2018 तक, या अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

गौरव शुक्ला, उप निदेशक (स्था.)

सं. ए-19012/112/2017-यूआईडी.ए.आई.—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(यूआईडीएआई) के दिनांक 15.02.2017 के पत्र सं. ए-12013/21(एस.ओ./मुख्या.)/11-यूआईडीएआई (खंड छ:) तथा निदेशक आयकर विभाग (आईएण्डसीआई) के कार्यालय, नागपुर के दिनांक 22.02.2017 के आदेश सं. डीआईटी(आईएण्डसीआई)/एनजीपी/एसयुबीआर/जीआर.बी/रीलिविंग/2016-17 के अनुसरण में, श्रीमती अथोता साई यु. बी. राव ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय), नई दिल्ली में, वेतन मेट्रिक्स लेवल-8 में [रुपए 9300-34800/- के वेतन बैंड, ग्रेड वेतन-4800/- (पूर्व संशोधित) के साथ], प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 14.03.2017 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

गौरव शुक्ला, उप निदेशक (स्था.)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2017

सं. ईआरबी-1/2013/2/13—राष्ट्रपति जी, श्रीमती रेखा यादव, एसजी/आईआरपीएस को 23.02.2017 के अपराहन से एस ए ग्रेड में पदोन्नत होने पर कार्यपालक निदेशक, स्थापना (स्पोर्ट्स), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. के. वर्मा, सचिव

दिनांक 17 मार्च 2017

सं. ईआरबी-1/2014/2/3—राष्ट्रपति जी, श्री तुषार कांत पान्डेय, आईआरएसई को 02.03.2017 के पूर्वाहन से एस ए ग्रेड में पदोन्नत होने पर कार्यपालक निदेशक (सिविल)/ट्रांसफार्मेशन सेल, रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. के. वर्मा, सचिव

सं. ईआरबी-1/2016/2/27—राष्ट्रपति जी, श्री संजय कुमार मोहंती, एसएजी/आईआरटीएस को 10.03.2017 के अपराहन से एच ए ग्रेड में पदोन्नत होने पर सलाहकार, टीटी (एम), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. के. वर्मा, सचिव

दिनांक 24 मार्च 2017

सं. ईआरबी-1/2015/2/20—राष्ट्रपति जी, श्री सुशांत कुमार मिश्रा, एसएजी/आईआरटीएस को 22.03.2017 के पूर्वाहन से एच ए ग्रेड में पदोन्नत होने पर सलाहकार(सी.सी.), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. के. वर्मा, सचिव

सं. ईआरबी-1/2015/2/37—राष्ट्रपति जी, श्री विनोद कुमार, एसएजी/आईआरटीएस को 22.03.2017 के अपराहन से एच ए ग्रेड में पदोन्नत होने पर सलाहकार(संरक्षा), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. के. वर्मा, सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2017

सं. ए-38020/2/2016-ई-1—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में उप सचिव (सीएसएस का चयन ग्रेड) श्री एच. के. कावलियनथांग अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 28.02.2017 (अपराहन) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

अनिल शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 14th March 2017

No. A.12026/6/2004-Admn.I (LD)—The President is pleased to extend the term of deputation period of Shri Hansraj, Assistant, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law & Justice to the post of Cash Officer in the Legislative Department of the said Ministry in level 7 of Rs.44900 - 142400 in the pay matrix of 7th Central Pay Commission [Pre-revised Pay Band of Rs.9300-34800/- with Grade Pay of Rs.4600/-] for a further period of one year w.e.f. the forenoon of 11th March, 2017 or until further orders.

2. Shri Hansraj will supervise the work of Cash Section of the Legislative Department (Main) and look after the duties of the Drawing and Disbursing Officer in respect of the Establishment of the Legislative Department (Main).

B. M. SHARMA, Deputy Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 21st March 2017

No.23012/01 /2015-AIS-III—Dr. Angel Bhati, IAS (AGMUT: 2014) has been permitted to change her name from Angel Bhati to Angel Bhati Chauhan. She will accordingly be recognized as Angel Bhati Chauhan for all official purposes.

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secretary

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 6th February 2017

No. A-11019/01/2016-EG—The President is pleased to appoint Shri MANJI JAMANADAS CHANDE as Welfare Officer on deputation basis in the office of the Accountant General (A&E), Gujarat, Rajkot in the scale of Rs.15,600 – 39,100/- (Grade Pay Rs.6,600/-) with effect from 28.12.2016(A.N.) until further order.

HARI KISHORE, Under Secretary

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi–110011, the 17th March 2017

No. A-32013/6/2016-NTH—The President is pleased to promote Dr. S.K. Kulshrestha, Scientists SD to the posts of Director (Grade II) in the National Test House in the Pay Band 4 of Rs.37400-67000 + Grade pay of Rs. 8700/- (Revised Level 13 of Pay Matrix) with effect from 27.02.2017 (F/N).

D. K. SONKER, Deputy Director (NTH)

New Delhi, the 21st March 2017

No. A-32013/1/2016-Estt. The President is pleased to appoint the following regular Assistant Directors (Legal Metrology) to the post of Deputy Director (Legal Metrology) in the Level 11 (₹67,700-2,08,700) of the Pay Matrix, on their promotion, purely on adhoc basis in the offices mentioned against their names for a period of one year with effect from the dates mentioned against their names and until further orders, whichever is earlier :-

S.No.	Name of the officer	Effective date of promotion/appointment	Name of office where the officer is posted on promotion
1.	Shri Anshul Singh	10.02.2017 (A.N.)	RRSL, Nagpur
2.	Shri Ashutosh Agarwal	10.02.2017 (A.N.)	RRSL, Varanasi
3.	Dr. Rakesh Joshi	01.03.2017 (F.N.)	LM Division, D/o Consumer Affairs, New Delhi

2. The above said appointments are further subject to the conditions prescribed in this Department's Office Order No. 22/2017 dated 10th February, 2017.

JAYASHREE NARAYANAN, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 17th February 2017

No. A.12025/01/2015-CHS-IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nidhi Chopra to the post of Specialist Grade-III (Paediatrics) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service w.e.f. the forenoon of 22nd June, 2015 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

The 21st March 2017

No. A.12025/98/2016-CHS.III—The President is pleased to appoint Dr. Archana Kashyap to the post of Assistant Professor in the speciality of Paediatrics in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service with effect from the forenoon of 12.01.2017 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 18th May 2016

No. A-32013/04/2014-Admn.II—The President is pleased to appoint following Junior Wireless Officers Group 'B' (Non- Gazetted) in PB -2 scale of pay Rs. 9300—34,800/- with GP of Rs. 4200/- in the grade of Engineer Group 'A' (Gazetted) in PB-3 scale of pay Rs. 15,600—39,100/- with GP of Rs.5400/- on their regular promotion in the Indian Radio Regulatory Service (IRRS) w.e.f the date mentioned against their names:-

Sl. No.	Name	Date of Joining
1.	Shri S. Jeyakumar	18.04.2016
2.	Shri C. Meenal	12.04.2016
3.	Shri G.C.Malick	11.04.2016
4.	Shri K.V. Sunil Kumar	25.04.2016
5.	Shri B.K. Ram	02.05.2016

NITHALI RAM, Under Secretary

The 5th July 2016

No. A-12028/54/2013-Admn.II—On attaining the age of superannuation Shri Kewal Singh, Assistant Wireless Adviser, IRRS, Department of Telecommunications, Ministry of Communications & Information Technology retired from Government Service w.e.f the afternoon of June 30, 2016.

NITHALI RAM, Under Secretary

The 6th July 2016

No. A-12028/54/2013-Admn.II—On attaining the age of superannuation Shri R.J.S. Kushvaha, Wireless Adviser, IRRS, Department of Telecommunications, Ministry of Communications & Information Technology retired from Government Service w.e.f the afternoon of June 30, 2016.

NITHALI RAM, Under Secretary

The 26th July 2016

No. A-12028/09/2014-Admn. II—The President is pleased to appoint Shri Anupriya Bardhan (Roll No. 217970, Rank - 48) a qualified candidate of Engineering Service Examination, 2014 to the post of Engineer (Indian Radio Regulatory Service) in the pay band of Rs. 15,600-39,100/- (PB-3) with the grade pay of Rs. 5400/- in the temporary capacity, in Wireless Planning & Co-ordination Wing Department of Telecommunications with effect from 28.12.2015 (F/N).

NITHALI RAM, Under Secretary

The 26th October 2016

No. A-32013/04/2014-Admn.II—The President is pleased to appoint following Engineers at level 10 (Rs. 56100—Rs. 177500/-) (PB-3 Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs. 5400/- as per 6th CPC) in the grade of Assistant Wireless Adviser/Engineer-in-charge at level 11 (Rs. 67700/- — Rs. 208700/-) (PB-3 Rs.15,600-39,100/- with GP of Rs. 6600/- as per 6th CPC) on their regular promotion in the Indian Radio Regulatory Service (IRRS) w.e.f the date mentioned against their names:-

Sl. No.	Name	Date of Joining
1.	A. K. Saxena	01.08.2016 (F/N)
2.	Gumma Rama Rao	20.06.2016 (F/N)
3.	K. Radhika	28.07.2016 (F/N)
4.	Ramesh Chandra Kota PH (OBC)	04.08.2016 (A/N)
5.	S. K. Gupta	01.08.2016 (F/N)
6.	Subhas Barua	04.08.2016 (F/N)

NITHALI RAM, Under Secretary

The 21st December 2016

No. A-32013/05/2016-Admn.II—The President is pleased to appoint following Junior Wireless Officers Group 'B' (Non-Gazetted) (PB -2 scale of pay Rs. 9300—34,800/- with GP Rs. 4200/- pre-revised) at level-6 (Rs. 35400/- — Rs. 112400/- Revised) in the grade of Engineer Group 'A' (Gazetted) (PB-3 scale of pay Rs.15,600—39,100/- with GP of Rs. 5400/- pre-revised) at Level – 10, (Rs. 56,100/- —Rs. 1,77,500/- Revised) on their regular promotion in the Indian Radio Regulatory Service (IRRS) w.e.f the date mentioned against their names:-

Sl.No.	Name of the Officer (S/Sh.)	Date of joining
1.	C K Mitra	25.10.2016 (F/N)
2.	Deepak Kumar Pant	27.10.2016 (F/N)
3.	Sukhbir Singh	28.10.2016 (F/N)
4.	Yogesh Kumar Sharma	26.10.2016 (F/N)
5.	K. V. S. Vara Prasad	26.10.2016 (F/N)
6.	S. S. Santaraman	25.10.2016 (F/N)
7.	B. Bhattacharjee	01.11.2016 (F/N)
8.	Nalinish Shrivastava	26.10.2016 (F/N)
9.	D. S. Rawat	26.10.2016 (F/N)
10.	J. K. Mukherjee	25.10.2016 (F/N)
11.	Brahma Pal Singh	27.10.2016(F/N)
12.	R. K. Yadav	31.10.2016 (F/N)
13.	A.V. S. Ravi Kumar	26.10.2016 (F/N)
14.	Nagendra Sharma	25.10.2016 (F/N)
15.	Yogesh Nandwani	26.10.2016 (F/N)
16.	Smt. Anees Abraham	16.11.2016 (F/N)
17.	P. Subba (ST)	28.10.2016 (F/N)
18.	Ravi Shankar Srivastava	07.11.2016 (F/N)

NITHALI RAM, Under Secretary

The 4th January 2017

No. A-38012/01/2016-Admn.II—On attaining the age of superannuation Shri H. M. Srivastava, Deputy Wireless Adviser, IRRS, Department of Telecommunications, Ministry of Communications retired from Government Service w.e.f the afternoon of November 30, 2016.

NITHALI RAM, Under Secretary

The 3rd February 2017

CORRIGENDUM

No. A-32013/03/2016-Admn.II—In partial modification of this office's Notification of even No. dt. 26.10.2016, the date of joining of Shri Gumma Rama Rao (Sl. No. 2) mentioned in the notification may be read as 01.08.2016 (F/N) instead of 20.06.2016.

2. All other things in this notification will remain same.

NITHALI RAM, Under Secretary

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

[UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA (UIDAI)]

New Delhi-110001, the 3rd March 2017

No. A-19011/112/14-UIDAI—In continuation of UIDAI HQ Notification of even number dated 17.02.2014 and in pursuance of approval of Competent Authority as conveyed by O/o the Principal Accountant General (Audit-I), Indian Audit and Accounts Department, Maharashtra vide their letter No. Admn-I/Audit/Dept/ASR/1548 dated 24.02.2017, the deputation period of Shri Arun Singh Rawat, Deputy Director at HQ, Unique Identification Authority of India, New Delhi has been extended for a further period upto 31.03.2017 or until further orders whichever is earlier.

GAURAV SHUKLA, Deputy Director (Estt)

The 16th March 2017

No. A-19011/30/12-UIDAI—In continuation of UIDAI HQ Notification of even number dated 29.05.2012 and Office Order of even number dated 22.10.2014 and in pursuance of approval of Hon'ble Minister for Electronics & Information Technology, the deputation period of Shri Amit Singal, Assistant Director General in Unique Identification Authority of India, Regional Office, Chandigarh has been extended further for a period of two years w.e.f. 11.05.2017 to 10.05.2019 in the 6th and 7th year or until further orders whichever is earlier.

GAURAV SHUKLA, Deputy Director (Estt)

No. A-19012/68/2013-UIDAI—In continuation of UIDAI HQ Notification of even number dated 29.05.2013 and 31.03.2016 and in pursuance of approval of Hon'ble Minister for Electronics & Information Technology, the deputation period of Smt. Poonam Khera, Private Secretary in HQ, Unique Identification Authority of India, New Delhi has been extended further for a period of one year i.e. upto 26.05.2018 for the 5th year or until further orders whichever is earlier.

GAURAV SHUKLA, Deputy Director (Estt)

No. A-19012/112/2017-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, New Delhi letter No.A-12013/21(SO/HQ)/11-UIDAI (Vol. VI) dated 15.02.2017 and subsequent DIT(I&CI)/Ngp./ASUBR/Gr.B/ Relieving/2016-17 dated 22.02.2017 of O/o Director Income Tax (I&CI), Nagpur, Smt. Athota Sai U.B. Rao has assumed the charge of the post of Section Officer in Unique Identification Authority of India, HQ, New Delhi w.e.f 14.03.2017(F/N) in the Pay Matrix Level-8 (pre-revised Pay Band of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800) on deputation basis for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

GAURAV SHUKLA, Deputy Director (Estt)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th March 2017

No. ERB-I/2013/2/13—The President is pleased to appoint Smt. Rekha Yadav, SG/IRPS as Executive Director, Establishment (Sports), Railway Board on promotion to SA Grade with effect from afternoon of 23.02.2017.

R. K. VERMA, Secretary

The 17th March 2017

No. ERB-I/2014/2/3—The President is pleased to appoint Shri Tushar Kant Pandey, IRSE as Executive Director (Civil)/Transformation Cell, Railway Board on promotion to SA Grade with effect from forenoon of 02.03.2017.

R. K. VERMA, Secretary

No. ERB-I/2016/2/27—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Mohanty, SAG/IRTS as Adviser TT(M), Railway Board on promotion to HA Grade with effect from afternoon of 10.03.2017.

R. K. VERMA, Secretary

The 24th March 2017

No. ERB-I/2015/2/20—The President is pleased to appoint Shri Sushant Kumar Mishra, SAG/IRTS as Adviser (CC), Railway Board on promotion to HA Grade with effect from forenoon of 22.03.2017.

R. K. VERMA, Secretary

No. ERB-I/2015/2/37—The President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar, SAG/IRTS as Adviser (Safety), Railway Board on promotion to HA Grade with effect from afternoon of 22.03.2017.

R. K. VERMA, Secretary

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 15th March 2017

No. A-38020/2/2016-E-I—On attaining the age of superannuation, Shri H. K. Kawllienthang, Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) in the Ministry of Road Transport and Highways has retired from Government service w.e.f. 28.02.2017 (A.N.).

ANIL SHARMA, Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in